

ADDI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: A - 104, 3rd Floor, DDA Shed, Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110020

: 011-45025469

E-MAIL: addiind@gmail.com, atul.addi@gmail.com

WEB: www.addiindustries.com CIN No.: L51109DL1980PLC256335 GSTIN: 07AAACA7660H1ZQ

August12, 2023

The Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers **Dalal Street Fort** Mumbai - 400001

Scrip Code: 507852

Subject: Newspaper Advertisement - Un-audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023

Dear Sir/Madam,

Please find attached copy of Newspaper Publication of the Extract of Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the guarter ended 30th June, 2023 duly published by the Company in the Pioneer (English & Hindi Edition) on Saturday, 12th August, 2023 pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

You are requested to take the same on your record.

Thanking You

Very truly yours For - ADDI INDUSTRIES LIMITED

ET KAUR PROBLEM

TaranjeetKaur Company Secretary Membership No. 8991

Encl.: As above

पाकिस्तान में फैसलों की समीक्षा का कानून रह

🔵 नवाज शरीफ वी उम्मीदो पर फिरा पानी

इस्लामाबाद भाषा।

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सर्वसम्मित से लिए गए एक निर्णय में अपने फैसलों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में संशोधन करने वाले एक कानून को रद्द कर दिया। इस फैसले से सार्वजनिक पद धारण करने के लिए आजीवन अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती देने के इच्छुक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन सदर्स्ड्य पीठ ने फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायालय (फैसलों और आदेशों की समीक्षा) कानून-2023 असंवैधानिक था। अदालत ने 87 पेज के आदेश में कहा, संसद उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित किसी भी मामले पर कानन नहीं बना सकती। उसने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान की व्याख्या

अदालत ने जेल प्रशासन से वकीलों को इमरान खान से मुलाकत की इजाजत देने क आदेश दिया



इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वकील अटक जेल में उनसे मिल सकते हैं। खान भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल की सजा काट रहे हैं। यह फैसला तब आया, जब खान के वकील शेर अफजल खान मारवात मुख्य न्यायाधीश आमिर प्रास्न्क के सामने पेश हुए और उनसे अनुरोध किया कि कानूनी टीम को पंजाब प्रांत में शनिवार से जेल में बंद खान से मिलने की

अनमति देने के लिए निर्देश जारी करें। द एक्सप्रेस दृब्यून अखबार की खबर के अनुसार, मारवात ने कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद वकीलों को पाकिस्तान तहरीक ए-इंसाफ के अध्यक्ष खान से मिलने की अनुमति नही दी गई। उन्होंने कहा कि खान के वक्रीलों के खिलाफ जेल में व्यवधान पैदा करने के झूटे आरोप लगाए गए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमने यह पहले भी कहा है और हम फिर से कह रहे कि ववीलों वो मुलावात करने वी अनुमति है। उन्होंने आगाह किया, मुलाकात की अनुमति न देना अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा।

पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय के पास है। छह सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 19 जून को अपना फैसला सरक्षित रखे लिया था। पाकिस्तान सरकार ने मई में अपने मूल अधिकार क्षेत्र के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के

करने का अधिकार निरपेक्ष रूप से अधिकार देने के लिए कानून बनाया था। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ को वर्ष 2017 में शीर्ष अदालत की पांच सदर्स्डय पीठ ने अयोग्य घोषित कर दिया था, चुनौती देने के लिए कोई कानून नहीं था।

सेना के समर्थन के बिना सरकर नही चला सकतेः शहबाज शरीफ

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकर किया है कि उनकी सरकार भी शक्तिशाली सेना केसमर्थन के बिना नहीं चल सकती, जो तखतापलट की आशंक वाले देश की राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिक को दर्शाता है। शहबाज शरीफ जब विपक्ष के नेता थे. तो वह शासन चलाने के लिए सेना के दखल को लेकर तत्क्वलीन प्रधानमंत्री इमरान खान वी आलोचना करते थे। लेकिन, सत्ता मे आने



के बाद उन्होंने वही र्ढा अपना लिया। बृहस्पतिवार को प्रसारित जियो न्यूज के साथ एक साक्षात्कर में जब एंकर ने कहा कि पाकिस्तान आज दुनिया में हाइब्रिड शासन के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है, तो शरीफ ने कहा कि खान ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर बहुत भरोसा किया था। शहबाज ने कहा, खान को भी अपने कार्यकाल के दौरान सैन्य समर्थन मिला। भले उन्होंने दूसरों पर आरोप लगाए लेकिन उनकी सरक्तर विभिन्न घटकों का मिश्रण थी। हर सरकार को सेना सहित प्रमुख क्षेत्रों से समर्थन की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद से देश में आधे समय तक सेना का शासन रहा है। शेष आधे भाग में इसने पर्दे के पीछे से देश की राजनीति को नियंत्रित करने का वाम किया।

फैसले के बाद नवाज (73) सार्वजनिक पद संभालने के लिए आजीवन अयोग्य हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री नवंबर 2019 से चिकित्सीय उपचार के लिए लंदन में हैं. जब पाकिस्तानी अदालत ने उन्हें चार सप्ताह की राहत दी थी। तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज लंदन खाना होने से पहले अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में लाहौर स्थित कोट

लखपत जेल में सात साल कारावास की सजा काट रहे थे। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद-62 के तहत नेता जहांगीर तरीन को भी अयोग्य ठहराया था। जियो न्यज की खबर में कहा गया है कि यदि आज रहा होता. तो दोनों नेताओं को अपनी अयोग्यता को चुनौती देने का मौका

दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जकार्ता, वाहनों क धुआं और शुष्क मौसम प्रदूषण का मुख्य कारण

जकार्ता। स्विटनरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को सबसे पटिषत शहर करार दिए जाने के बाद शक्रवार को अधिकरियों ने कहा कि वाय प्रदुषण क मुख्य कारण शुष्क मौसम और मोटर वाहनो से निकलने वाला धुआं है। दनिया के चौथे सबसे अधिक आबादी वाले देश की राजधानी जकार्ता में पिछले कुछ महीनो से हर सुबह घना धुआं और धूलभरा आसमान दिखाई देता है। खिटनरलैंड स्थित आईक्युएयर की हालिया रैकिंग के अनुसार जकार्ता दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नियमित रूप से

PUBLIC NOTICE

l Mrs. Sarita Aggarwal W/o Sh. Kailash Chand Aggarwal R/o A-5/7 DLF City Phase-1 Gurgaon have lost the original Builder Buyer's Agreement of Property No. A-5/13, measuring 502.32 sqyds, DLF City Phase-I, Gurugram, Haryana Any person would find the above said original Builder Buyer's Agreement, kindly contact undersigned.

Mrs. Sarita Aggarwal (Owner

W/o Sh. Kailash Chand Aggarwal R/o A-5/7 DLF City Phase-1 Gurgaon

प.अफ्रीकी देशों के नाइजर में लोकतंत्र बहाली के लिए सेना भेजने की तैयारी से बढा तनाव

नाइजर के नए सैन्य शासन और पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय समूह के बीच तनाव बढ़ रहा है। संगठन ने नाइजर के कमजोर लोकतंत्र को बहाल करने के लिए सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। ईसीओडब्ल्युएएस समृह ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बजीम को बहाल करने की रविवार की समय सीमा समाप्त होने के बाद नाइजर में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए एक स्टैंडबाई फोर्स (अतिरिक्त बल) को निर्देश दिया है। इससे पहले दो पश्चिमी अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि नाइजर के जुंटा ने एक शीर्ष अमेरिकी राजनियक से कहा था कि अगर पड़ोसी देशों ने बजौम के शासन को बहाल करने के लिए किसी भी सैन्य हस्तक्षेप का प्रयास किया.।

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

It is to inform to the public at large that Mr.
Suresh Kumar& Mrs. Sangeetawho
arepurchasing the Freehold Residential Plot
No.18 and 19, area measuring 200 Sq. Yds.
(167.22 Sq. Mtr.), out of Khasra No.1013,
situated at Nirmala Vihar Colony, Village Loni,
Pargana Loni Tehsil & District, Ghaziabad
(U.P.);from Mr. Vijay Kumar MalhotraSró. Late
Mr. Jogindar Malhotra, who is owner of the
aforesaid propertyide Regd, WilL, dated
22.09.2014, which is duly registered vide
Document No.734, at SRO-Ghaziabad-rV which
was executed by his mother Mrs. Darshna
Malhotra Wio. Late Mr. Jogindar Malhotra; and
same to be finance & mortgage by Ummeed
Housing Finance Private Limited, To comply the
requirements of BANIX/MSPC, we give this
public notice that if any Person having any type
of claim/right/title/interest/ creating mortgage
over the said property, may inform in writing, at
the address mentioned below, about his
objections, within 07 days from today, falling
which it shall be presumed that the said property
is free from all type of Encumbrances, lien etc.
Lucem Legal LLP Plot no.136, (Basement)

em Legal LLP Plot no.136, (Base Uday Park, New Delhi-110049 Contact# 011-40046316

ADDI INDUSTRIES LIMITED

institution having any claim, title, interest and lor objection in respect of or against or relating to or touching upon said property or part of the property by way of sale, exchange, lease, lien, montgage, charge, encumbrance, gift, trust, easement, maintenance, inheritaince, testamentary deposition or otherwise or having in their custody any title, documents pertaining the said property shall communicate the same to the undersigned at below mentioned address within 10 days from the publication of this notice with documentary evidence in support thereof, falling which all the claim, of such person shall be considered to have been waived and or absorbored. Any objections raised after the completion of the 10 days shall not be binding upon the said property or my Client& in case anyone has any objection, the same may be raised within 10 days of this publication to fir. Muneash Dhawan/ Mr. Sudhir Jain (Advocates Law Veritas North, Unit no 907, 9th Floro, GD-IT Tower, (6-08), Netaji Subhash Place, Delhi-110034 or contact at 9066707172/9818228636 (M).

संयुक्त राष्ट्र के १८ महीने पहले अगवा पांच कर्मी मक्त

कहिरा। संयुक्त राष्ट्र (संरा) ने शुक्रवार को कहा कि यमन में 18 महीने पहले अगवा किए गए उसके पांच कर्मचारियों को मुक्त कर दिया गया संरा के प्रवक्ता फरहान हक ने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पांचो क्वर्मियो की सेहत दुरुस्त है।हक के अनुसार मुक्त किए गए कर्मी अवम सुफीउल अनम, माजेन बावजीर, बकील अल महदी, मोहम्मद अल मुलेकी और खालिद मुख्तार शेक है। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा विभाग के लिए काम करते है।अपहरणकर्ताओं वी पहचान का खुलासा नही किया गया है।

चीन के हेबेई प्रांत में बाढ़ का प्रक्रेप, 29 लोगों की मौत

बीजिंग। चीन में इस महीने आए तूपान डोकसुरी के बाद हेबेई प्रांत में आई भीषण बाढ़ के कारण कम से कम २९ लोगों की मौत हो गई और अरबो डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रांतीय सरकार ने शुक्रवार को यह जानकरी दी। सरकरी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक, बचावकर्मी १६ लापता लोगो की तलाश में जुटे हैं। इसके मुताबिक, भीषण बाढ़ के करण हुए नुकसान के बाद प्रांत के पुनर्निर्माण क्वर्य में करीब दो साल क समय लग सक्ता है। सरकारी मीडिया चाइना न्यूज सर्विस ने बताया कि शस्त्राती आळलन के अनुसार प्रांत को १३.२ अरब डॉलर क प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान हुआ है।

चीन ने सीआईए के लिए जासूसी करने के संदेह में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया

ताइपे (ताइवान)। चीन ने अमेरिकी खुफिया एनेसी सीआईए के लिए जासूसी करने के संदेह में एक सैन्य औद्योगिक समूह से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राष्ट्रीय सरक्षा अधिकारियों ने शक्रवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही बीजिंग और वाशिगटन के बीच जासूसी के सार्वजनिक आरोपों की कड़ी में एक और मामला जुड़ गया है। देश के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ज़ेंग नाम वा एक सैन्य औद्योगिक कर्मी बड़ी रकम के बदले सीआईए को खुफिया जानकारी प्रदान कर रहा था।

रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे पर हवाई हमले का आरोप लगाया

🛡 जेलेंस्की ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और

कटम उटाया

भाषा। कीव

रूस के मिसाइल दागने से पश्चिमी यक्रेन में आठ साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि रूस ने आरोप लगाया कि युक्रेनी सेना ने द्धोन के जरिए मॉस्को को लगातार तीसरे दिन निशाना बनाया, लेकिन इससे कथित तौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा शक्रवार को युक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने क्षेत्रीय सैन्य मसौदा बोर्ड के सभी प्रमुखों को बर्खास्त करने की



से अधिक समय पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी उनकी कार्वाई का हिस्सा है। युक्रेन के अभियोजक जनरल कार्यालय के अनुसार, जिस मिसाइल से लडके की मौत हुई, वह पोलैंड की सीमा घोषणा की। यह कदम 17 महीने से लगभग 100 किलोमीटर (60

जेल जाने के दो घंटे बाद रिहा हुए दक्षिण अफ्रीक के पूर्व राष्ट्रपति जुमा

मील) दूर पश्चिमी यूक्रेन के इवानो-फ्रैंकिञ्स्क क्षेत्र में एक घर

युक्रे नी अधिकारियों ने कहा कि

कार्येटर प्रश्वान संख्या - एत्य १००६ शैएना २००० प्रिकाशक प्रीएनसी ६९३ १६ पंत्रीकृत कार्यात्य - प्रथम तल, एक्स्प्रोस बिल्डिंग, ९-१०, बलदुरशाट जफर मार्ग, नई दिक्षी ११०००२ फोन - ७३०३४६५३७४, ई-मेल - camaccommercial@gmail.com,

भाषा। जोहानिसबर्ग

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को उनकी पैरोल अवैध करार दिए जाने के बाद शक्रवार को वापस जेल ले जाया गया. लेकिन जेलों में भीड कम करने के लिए शुरू किए गए एक नए कार्यक्रम के तहत उन्हें दो घंटे के भीतर फिर से रिहा कर दिया गया। सरकार के इस फैसले को लेकर काफी सवाल किए जा रहे हैं कि क्या जुमा (81) को अदालत की अवमानना के मामले में 15 महीने की सजा से बचने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के कार्यक्रम को राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा द्वारा अधिकृत किया गया था और शुक्रवार को पहली बार इसे सार्वजनिक किया गया। हालांकि इसका लक्ष्य 9,400 से अधिक कैदियों को जेल से रिहा करना और उन्हें घर पर सुधारात्मक निगरानी में रखना है, पूर्व राष्ट्रपति जुमा इससे लाभान्वित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। सुधार विभाग के कार्यवाहक राष्ट्रीय आयुक्त मक्गोथी थोबाकगले ने बताया कि जमा ने अपनी सजा के शेष 13 महीने काटने के लिए सबह करीब छह बजे क्वा-जुलू नेटाल प्रांत में एस्टकोर्ट सुधार केंद्र पहुंचे, लेकिन सुबह सात बजे के कुछ देर बाद जब उनकी सजा में छूट की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उन्हें रिहा कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की मुख्य विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता जॉन स्टीनहुइसन ने कहा, आश्चर्य, आश्चर्य, वह एक नई नीति के पहले लाभार्थी हैं। यह न्याय प्रणाली में एक निंदनीय

कि युक्रेन की हवाई सुरक्षा प्रणाली ने राजधानी कीव पर रूस की ओर से दिन के उजाले में किए गए हमले को विफल कर दिया। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि रोकी गई मिसाइलों का मलबा बच्चों के अस्पताल के परिसर सहित शहर के आवासीय इलाकों पर गिरा, लेकिन इससे कोई हताहत नहीं हुआ।

पर गिरी। कार्यालय ने दावा किया

रुगए लाख में, सिताय प्रति शेयर डे तिमाही समाप्त वर्ष समाप विवरण 31, 2023 परिचालन से कल आय 59.48 141.05 अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर तथा अपवाद मदों से पूर 109.70 140.65 (56.15)अवधि हेत् शुद्ध लाम / (हानि) कर पूर्व (अपवाद मदों के बा (56.15) 109.70 (329.45 अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पश्चात (अपवाद मदों (55.63) 109.91 (329.25 अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हान् - 3 - - - - - - जान p-जवन जनाव हतु लाग / (हा। (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात सम्मिलित है] (35.92) 88.28 अन्य इक्विटी 173,162.5 क. 10/-प्रत्येक के शेयर पर प्रति शेयर अर्जन 12.45 12.45 (ख) तनुकृत (रू.)

वेबसाइर www.camaccommercial.com

नोट्स :- 街 तथा अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा 11 अगस्त, 2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में किय

जपरोक्त विवरण सेबी (सचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के विनिय 33 के तहत स्टॉक एक्सबेन्ज में प्रस्तुत किए गए 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। कम्पनी के वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा 11 अगस्त, 2023 को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटे कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटे

हस्ता. /-(मोनीशा सराफ निदेशव श्यान :- नई दिल्ली डीआईएन : 0750364

पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन : एल६५९२९डीएल1947पीएलसी००१२४० पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9—10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली—11000: फोन : 7303495375, ई-मेल : pnbfinanceindustries@gmail.com, वेबसाइट : www.pnbfinanceandindustries.com 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु

समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

豖.		1	तिमाही समाप	त	वर्ष समाप्त
सं.	विवरण	जून	मार्च	जून	मार्च
		30, 2023	31, 2023	30, 2022	31, 2023
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	93.71	154.67	322.59	1,126.96
2	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(52.40)	20.68	227.77	793.20
3	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(52.40)	20.68	227.77	301.42
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाघारण मदों के पश्चात)	(52.67)	19.67	187.76	179.39
5	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	2,814.60	(555.11)	(2,385.83)	21,815.33
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10 प्रति शेयर)	320.00	320.00	320.00	320.00
7	अन्य इविवटी (वर्ष के अन्त में)				265,249.34
8	प्रति शेयर अर्जन रू.10/-प्रत्येक का				
	(क) मूल (रू.)	(1.65)	0.62	5.87	5.61
- 1	(ख) तनुकृत (रू.)	(1.65)	0.62	5.87	5.61

द्वारा 11 अवस्त, 2023 को आमोजित इसकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। उपरोक्त विवरण सेनी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। कम्पनी के उपरोक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण कम्पनी व वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा 11 अगस्त, 2023 को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित पृथक्कृत वित्तीय परिणामों के प्रमुख आंक

	(रू. लाख में	सिवाय प्रति	शेयर डेटा)		
	fe	तिमाही समाप्त				
विवरण	जून 30, 2023 अलेखापरीद्वित	मार्च 31, 2023 लेखापरीदीत	जून 30, 2022 अ लेखापरीवि त	मार्च 31, 2023 लेखापरीक्षात		
परिचालन से कुल आय	89.67	145.70	314.30	1,065.60		
अवधि हेतु कर से पहले शुद्धलाम/(हानि)	-55.16	12.98	220.40	716.43		
अवधि हेतुं कर पश्चात शुद्ध लाम/(हानि)	-54.95	12.64	181.81	603.13		
अवधि हेतु कुल समावेशी आय	2,170.58	-415.66	-2,395.82	12,553.19		

संगत तिमाही के आंकड़े, जहां आवश्यक है, चालू तिमाही की प्रस्तुति/वर्गीकरण के अनुर बनाने के लिए पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं। निदेशक मंडल के आदेश दारा

पीएनबी फाइनैंस ऐंड इंडस्ट्रीज लिमिटे निदेशक एवं कम्पनी सचिव

12-8wX17h-PNB Finance-HINID

90.32 62.34 97.60 59.26 289.44 Tax and exceptional items)
Net Profit for the period (bet 101.42 90.77 1,934.38 2,131.89 97.60 87.23 1,931.30 2,119.00 Tax, after exceptional items)
Net Profit for the period after Tax (after exceptional items)

Total Comprehensive Income Total Comprehensive Income for the period (Comprising for the Period after Tax and Othe 79.57 75.83 547.92 1,703.96 76.29 1,692.59 72.76 1,545.1 Comprehensive Income after Tax Paid-up equity share capital (Face Value ` 5/- each)
Earnings Per Share
(of ` 5/- each)(Not Annualised)
Basic

he SEBI (Listing and other Disclosure requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter annual makes is a set on the webites of the stock exchange. (URL-www.bseindia.com).

The above financial results have been reviewed by Audit Committee and thereafter approved and taken on record by a section in its meeting held on August 11, 2023. The Statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion. There is no change(s) in accounting policies which have impact on net profit / loss, total comprehensive income or any cincial item(s).

The Board of Directors has recommended a final dividend of Rs.1.25 /- per equity share of face value of Rs.5 /- each foir ended 31 March 2023 subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting.

For and on behalf of the Boarc

Sd/-Chaman Lal Jain Managing Director Place : New Delhi Date : 11.08.2023

डेल्टन केबल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : डेल्टन हाउस, 4801, भरत राम रोड, 24, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 वेबसेंडट : www.deltoncables.com. ई-मेल : cs@deltoncables.com, सीआईएन : एल31300डीएल1964पीएलसी004255 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 30-06-2023	तिमाही समाप्त 31-03-2023	तिमाही समाप्त 30-06-2022	वर्ष समाप्त 31–03–2023
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित		लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	6,952.95	8,050.18	6,444.11	27,214.70
2	अवधि हेतु शुद्ध लाम (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	156.07	98.53	215.55	656.95
3	अवधि हेतु शुद्ध लाम, कर से पूर्व(अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	156.09	98.61	223.46	664.95
4	अवधि हेतु शुद्ध लाम, कर पश्चात(अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	127.27	(432.85)	239.56	57.75
5	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाम (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	129.51	(429.05)	244.98	63.64
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक)	864.00	864.00	864.00	864.00
7	प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों से पहलें) (अंकित मूल्य रू. 10/— प्रत्येक) (क) मूल (रू.) (ख) तनुकृत (रू.)	1.47 1.47	(5.01) (5.01)	2.77 2.77	0.67 0.67
नो	दस :				

(1) उपरोक्त विवरण सेबी (सुवीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत कि गए तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप

स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट : (www.deltoncables.com) पर उपलब्ध है। (2) उपरोक्त परिणाम मारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के सिद्धान्त और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसािक कम्पनी (मारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 में अधिसृधित किया गया है, जैसािक कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। (3) उपरोक्त परिणामों का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा सिमित द्वारा और अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा 11-08-2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में किया गया है।

हस्ता/-विवेक गुप्ता स्थान : दिल्ली (प्रबंध निदेशक)

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक िICICI Bank रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

जबांक अधोहस्ताक्षरी ने वितीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्ज़दारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का प्रतिभृतान करने को कहा गया था। कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार/ज्ञानातदार राशि का प्रतिभृतान करने में विफल रहें हैं, अतप्त एतद द्वारा कर्ज़दार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक अधिमहण किया गया है जो कि उक्त अधिनयम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद द्वारा विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे व्याज हेतु आईसीआईस्तीशाई बैंक तिथिन के पाश्च के अधीन होगा। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.		संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा क नाम	
1.	मनीष कुमार/ हरीश कुमार/ रेखा रानी/ LBDEL00005332921 & LBDEL00005123296	डीडीए एलआईजी फ्लैट नंबर 27 डी, तीसरी मंजिल, ब्लॉक बीबी, टाइप-ई, शालीमार बाग ईस्ट, दिल्ली/ अगस्त 07, 2023	मार्च 15, 2023		
2.	प्रशांत जैन/ सुरिंदर कुमार जैन/ LBNOD00004690485	संपत्ति संख्या 33, बिना छत के पहली और दूसरी मंजिल के बीच मेजेनाइन रूम के साथ पहली मंजिल, ब्लॉक-जी, पॉकेट-17, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली/ अगस्त 07, 2023	अप्रैल 06, 2023 रु. 25,41,258/-	दिल्ली/ एनसीआर	
3.	चंद्र नेगी/ रविंदर सिंह/ LBFDB00005495684	फ्लैट नंबर-007, हैबिटेट 78, टॉवर बी-2, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 78, फ़रीदाबाद/ अगस्त 08, 2023	अप्रैल 06, 2023 रु. 21,29,261/-	दिल्ली/ एनसीआ	
4.	मनोज कुमार/ अंशुल शर्मा/ LBGHZ00005341948/ LBGHZ00004861411	यूनिट नंबर बी 607, टॉवर बी, 7वीं मंजिल, "अजनारा होम्स", प्लॉट नंबर जीएच 03, सेक्टर 16 बी, जिला गौतमबुद्ध नगर, नोएडा/ अगस्त 08, 2023	मार्च 15, 2023 रु. 17,90,983/-	दिल्ली/ एनसीआर	
5.	सिम्मी विज/ राजेश कुमार विज/ LBDEL00004913388	प्लॉट नंबर एफ- 64, छत के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल, ब्लॉक एफ, विकासपुरी, दिल्ली/ अगस्त 08, 2023	मार्च 07, 2023 रु. 43,56,293/-	दिल्ली/ एनसीआर	
6.	सुखविंदर कौर/ मंजीत सिंह/ LBNOD00004232257	प्लॉट नंबर 331, छत के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल, संपत्ति धारक संख्या डब्ल्यूजेड- 93, खयाला कन्हैया पार्क, चांद नगर, तिलक नगर, दिल्ली/ अगस्त 08, 2023	मार्च 09, 2023 रु. 33,16,561/-	दिल्ली/ एनसीआर	
7.	तारिफ खान/ मो अहमद खान/ LBNOD00002380736	फ्लैट नंबर 10173, 10वीं मंजिल, मार्वेल्ला, महागुन माई बुङ्स, प्लॉट नंबर जीएच– 04, सेक्टर 16सी, ग्रेटर नोएडा/ अगस्त 08, 2023	मार्च 09, 2023 रु. 35,84,564/-	दिल्ली/ एनसीआर	
8.	देवदत्त शर्मा / रिजू कुमारी / LBFDB00005791882	फ्लैट नंबर 1104, टावर ए2, फ्लोर 11, सेक्टर- 78, हैबिटेट- 78, फ़रीदाबाद/ अगस्त 09, 2023	अप्रैल 06, 2023 रु. 20,08,823/-	दिल्ली/ एनसीआर	
9.	श्वेता./ सतवीर/ LBFDB00006283397 & LBPLW00006244731	खेवट खाता, नंबर 115/120, आरईसीटी नंबर 5, किला नंबर 18 (2–11), मौजा फाजलपुर, नयागांब, अलवरपुर, पलवल/ अगस्त 09, 2023	फ़रवरी 27, 2023 रु. 45,87,629/-	दिल्ली/ एनसीआर	
10.	राजेश भाटिया/ रेणु भाटिया/ मगवान दास भाटिया/ सुनील कुमार भाटिया/ सर्वेश भाटिया/ सिम्मी ट्रेडर्स/ LBFDB00000967391	बंगला प्लॉट नंबर 53, नेबरहुड नंबर 2, ब्लॉक– बी, न्यू टाउनशिप, फ़रीदाबाद, फ़रीदाबाद/ अगस्त 09, 2023	अप्रैल 18, 2023 रु. 10,09,680/-	दिल्ली/ एनसीआर	

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह–कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी करें दी जाएगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 प्रतिभूति हिंत (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई बैंक लि.

एक रॉकेट प्रक्षेपित हुआ। सुदूर पूर्व में रूस के वोस्तोचन अंतिरक्षियान से चंद्रमा के लिए लूना-25 यान का

के इकलौते उपग्रह चंद्रमा पर उतरने की होड़ में लगभग 50 वर्षों में रूस के पहले चंद्र अभियान के तहत शुक्रवार को चंद्र लैंडिंग क्राफ्ट ले कर उम्मीद है और उसी दिन भारतीय यान पहुंचाने में सक्षम है और रूस चंद्रमा की के भी चंद्रमा पर पहुंचने की उम्मीद सतह तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित

भाषा। तल्लिन (एस्तोनिया)

प्रक्षेपित किया गया था। रूसी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के आसपास की यात्रा **भारतीय अंतरिक्ष** यान से पहले पृथ्वी करने में लगभग 5.5 दिन लगेंगे। फिर तीन से सात दिन यह सतह पर जाने से पहले लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करेगा। केवल तीन देश ही चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहे हैं: सोवियत संघ, अमेरिका और चीन। भारत और रूस का लक्ष्य चंद्रमा प्रक्षेपण 1976 के बाद रूस का पहला के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने प्रक्षेपण है। तब यह सोवियत संघ का का है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी हिस्सा था। रूसी चंद्र लैंडर के 23 रोस्कोस्मोस ने कहा कि वह यह दिखाना अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचने की चाहती है कि रूस चंद्रमा पर पेलोड

है। भारतीय यान को 14 जुलाई को करना चाहता है। जाने माने रूसी प्रक्षेपित किया गया।

लगभग ५० वर्षों में रूस के पहले चंद्र अभियान

पर लैंडिंग क्रफ्ट के साथ रॉकेट खाना हुआ

लक्ष्य दो महाशक्तियों चीन और अमेरिका तथा कई अन्य देशों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है जो अंतरिक्ष महाशक्ति के खिताब पर दावा करना चाहते हैं। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से उसके लिए पश्चिमी प्रौद्योगिकी तक पहुंच मुश्किल हो गई है, जिससे उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि लूना-25 शुरू में एक छोटे चंद्रमा रोवर को ले जाने के लिए था, लेकिन यान के वजन को कम करने के उद्देश्य से उस विचार को छोड दिया गया। ईगोरोव ने कहा, विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स हल्के होते हैं, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स भारी होते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के पास चंद्र जल का अध्ययन करने का कार्य हो सकता है। रोस्कोसमोस के लिए मुख्य कार्य केवल चंद्रमा पर उतरना, सोवियत विशेषज्ञता को पुन: प्राप्त करना और यह सीखना है कि नए युग में इस कार्य को कैसे किया जाए। रोस्कोस्मोस के वीडियो फीड के अनुसार लूना-25 को

रूस के सुदूर पूर्व में वोस्तोचन

कोस्मोद्रोम से बिना किसी त्रुटि के

अंतरिक्ष विश्लेषक विताली ईगोरोव ने कहा, चंद्रमा का अध्ययन लक्ष्य नहीं है।



Stock markets decline for 2nd day

Benchmark equity indices Sensex and Nifty declined for a second straight day on Friday due to selling in banking, FMCG, and pharma shares amid a negative trend in Asian and European markets. The domestic markets traded weak post the RBI monetary policy and the unexpected announcement of reducing cash in the banking system.

The 30-share BSE Sensex fell by 365.53 points or 0.56 per cent to settle at 65,322.65. During the day, it tanked 413.57 points or 0.62 per cent to 65,274.61.

The NSE Nifty declined by 114.80 points or 0.59 per cent to end at 19,428.30.

From the Sensex pack, IndusInd Bank, NTPC, Asian Paints, Hindustan Unilever, JSW Steel, Tech Mahindra, Bajaj Finance, Infosys, Wipro, ICICI Bank, Bajaj Finserv, HDFC Bank and Tata Motors were among the major laggards.

HCL Technologies, Power Grid, Titan, Reliance Industries, UltraTech Cement, Tata Steel, State Bank of India and Mahindra & Mahindra were the gainers. "The domestic market continued to experience selling pressure, with banking stocks extending their decline in reaction to the RBI's liquidity absorption measures," said Vinod Nair, Head of Research at Geojit Financial Services.

"The escalating concerns about inflation further weighed on domestic market sentiments.

Despite the US CPI coming in lower-thanexpected and the UK GDP beating estimates, glabal sentiment remained unfavourable," Nair

added. The Reserve Bank of India (RBI) on Thursday left its key interest rates unchanged for a third straight meeting but signalled tighter policy if food prices continue to drive inflation highér. The hawkish stance was also reinforced by the unexpected announcement of reducing the cash in the banking system by raising the incremental cash reserve ratio (I-CRR) to 10 per cent on the incremental NDTL (net demand and time liabilities) over the last three months.

This will help in absorbing a large part of the excess liquidity created through the return of the Rs 2,000 notes and the large dividend to the government from RBI.

Markets traded under pressure and lost over half a per cent, in continuation to the prevailing corrective tone," said Ajit Mishra, SVP Technical Research, Religare Broking Ltd.
In the broader market, the BSE smallcap

auge declined 0.31 per cent and midcap index fell by 0.13 per cent. Among the indices, financial services fell by 0.77 per cent, bankex declined by 0.73 per cent, FMCG (0.72 per cent), auto (0.70 per cent), consumer discretionar (0.53 per cent) and metal (0.52 per cent).

ADDI INDUSTRIES LIMITED REGD.OFFICE: A-104 3rd Floor DDA SHED OKHLA PHASE-2, NEW DELHI- 110020 CIN: L61109DL1980PLC256336 E -Mail: addilind@gmail.com, Tel.: +91-11-45025469 EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED JUNE 30, 2023

	(in Lakh, except per share data)									
Sr			Con	solidated			Stand	dalone		
Nο		Quarter	Quarter	Quarter	Year	Quarter	Quarter	Quarter	Year	
	Particulars	ended	ended	ended	ended	ended	bebne	ended	ended	
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	
			(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
1.	Total income from operations	123.74	109.63	88.51	405.12	119.88	106.03	85.35	391.94	
2.	Net Profit for the period (before									
	Tax and exceptional items)	101.42	90.32	62.34	302.33	97.60	86.78	59.26	289.44	
3.	Net Prafit for the period (before									
	Tax, after exceptional items)	101.42	90.77	1,934.38	2,131.89	97.60	87.23	1,931.30	2,119.00	
4.	Net Profit for the period after									
	Tax (after exceptional items)	79.59	76.34	1,547.78	1,704.05	76.31	73.27	1,545.04	1,692.68	
5.										
	for the period (Comprising for									
	the Period after Tax and Other									
	Comprehensive Income after Tax)	79.57	75.83	1,547.92	1,703.96	76.29	72.76	1,545.18	1,692.59	
6.	Paid-up equity share capital									
	(Face Value ` 5/- each)	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	
7.	Earnings Per Share									
	(of ` 5/- each)(Not Annualised)									
	Basic	0.69	0.70	13.36	15.78	0.71	0.67	14.31	15.68	
	Diluted:	0.69	0.70	13.36	15.78	0.71	0.67	14.31	15.68	
	ites :									
1.	The above is an extract of the	detailed form	at of quarte	r/annual fina	incial results	filed with the	stock excha-	nges under re	gulation 33	

The above is an extract of the detailed format of quarter/annual financial results filled with the slock exchanges under regulation 33 the SEBI (tisting and other Disclosure requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarter/ annual financial results are railable on the webites of the stock exchange. (URL-www.bseindia.com).

The above financial results have been reviewed by Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of rectors in its meeting held on August 11, 2023. The Statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion.

There is no change(s) in accounting policies which have impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant aprofit in the profit of the

Regd. Office: Delton House 4801 Bharat Ram Road 24 Darya Ganj New Delhi -110002 www.deltoncables.com, E-mail: cs@deltoncables.com, CIN: L31300DL1964PLC004255 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2023 (Rs. in lakh

SL No	Particulars	Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 31.03.2023	Quarter ended 30.06.2022	Year Ended 31.03.2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	6,952.95	8,050.18	6,444.11	27,214.70
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	156.07	98.53	215.55	656.95
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	156.09	98.61	223.46	664.95
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	127.27	(432.85)	239.56	57.75
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	129.51	(429.05)	244.98	63.64
6	Equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)	864.00	864.00	864.00	864.00
7	Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of Rs.10/- each)				
	(a) Basic (Rs.)	1.47	(5.01)	2.77	0.67
	(b) Diluted (Rs.)	1.47	(5.01)	2.77	0.67

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly Financial Result are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.deltoncable

The above result have been prepared in accordance with principle and procedures of indian Accounting Standards (Ind AS) the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified under section 133 of Companies Act, 2013.

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their resp

Place : Delhi Date: 11-08-2023

Emaar India Limited

CIN-U45201DL2005PLC133161

Registered Office:- 306-308, Square One, C-2, District Centre, Saket, New Delhi-110017 Email ID - bharat.garg@emaar.ae Website -www.in.emaar.com

FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30JUNE 2023

(Rs. in mi								
		Standalone						
S.	Particulars		Quarter ende	d	Year ended			
No.		30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23			
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total Income from Operations	10,272.67	4,360.56	2,756.11	17,657.62			
2	Net profit/(loss) for the period/year	685.00	673.23	(936.56)	97.07			
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)							
3	Net profit/(loss) for the period/year before tax	685.00	673.23	(936.56)	(1,186.78)			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)							
4	Net profit/(loss) for the period/year after tax	685.00	673.23	(936.56)	(1,186.78)			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)							
5	Total Comprehensive income/(loss) for the period/year [Comprising Profit / (Loss)	692.80	674.17	(936.67)	(1,178.98)			
	for the period/year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]							
6	Paid up Equity Share Capital	1,693.87	1,693.87	1,693.87	1,693.87			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(36,137.40)	(36,830.20)	(36,587.89)	(36,830.20)			
8	Net Worth	(34,443.53)	(35,136.33)	(34,894.02)	(35,136.33)			
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	77,643.65	77,412.87	82,234.46	77,412.87			
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-			
11	Debt Equity Ratio	(2.10)	(2.06)	(2.22)	(2.06)			
12	Earning / (Loss) Per Share (In Rupees) (Basic & Diluted)	4.04	3.97	(5.53)	(7.01)			
13	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-			
14	Debenture Redemption Reserve	738.13	738.13	738.13	738.13			
15	Debt Service Coverage Ratio	0.28	1.07	0.03	0.12			
16	Interest Service Coverage Ratio	1.43	1.43	0.44	0.83			

Place: Gurugram

1. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with stock exchange under regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015. The full formats of financial results are available on the website of the stock exchange www.bseindia.com and on the Company's website www.in.emaar.com

For the other line items referred in regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, pertiner disclosures have been made to the Stock Exchange and can be accessed on the website of stock exchange www.bseindia.com

3. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on August 10, 2023. For and on behalf of Board of Directors of

Emaar India Limited

Jamai Maied Khalfan Bin Thenlyah

Industrial production growth dips to 3-month low in June

PTI ■ NEW DELHI

India's industrial production growth declined to a three-month low of 3.7 per cent in June mainly due to poor showing by the manufacturing sector, according to the official data released on Friday.

The factory output growth measured in terms of the Index of Industrial Production (IIP) stood at 12.6 per cent in June 2022 on account of a lower base effect. The previous low of IIP was at 1.9 per cent in March 2023. Thereafter, it rose to 4.5 per cent in April and further to 5.3 per cent in May.

During the first quarter (April-June) of 2023-24, the IIP growth works out to be 4.5 per cent, down from 12.9 per cent in the corresponding period a year ago.

To ease the onboarding of

Clients for dealing in the securities market, Sebi on Fri-

day simplified the KYC process

and rationalised the risk man-

agement framework at KYC

registration agencies (KRAs).

lients, whose KYC has been

ompleted based on officially

Aadhaar, would be verified

within a period of 90 days from

alid documents other than

The records of all existing



"The growth rates over corresponding period of previous year are to be interpreted considering the unusual circumstances on account of COVID 19 pandemic since March 2020," an official statement said. As per the IIP data released by the National Statistical Office (NSO), the manufacturing sector's output grew 3.1 per cent in June

2023 against a 12.9 per cent a year ago. Power generation rose 4.2 per cent in

Sebi simplifies KYC process, rationalisation

of risk management framework at KRAs

September 1, 2023, Sebi said in

and ease of transaction in the

securities market, the client will

be allowed to open an account

with intermediaries and trans-

act in the securities market as

soon as the KYC (Know Your

Client) process is completed,

the risk management frame-

work, the KRAs will verify

attributes such as the PAN,

Subsequently, as a part of

For the interest of investors

a circular.

Sebi said.

June 2023 compared to 16.4 per cent a year ago. Mining output rose by 7.6 per cent during the month under review against 7.8 per cent in the year-ago period. As per use-based classification, the capital goods segment grew 2.2 per cent in June this year compared to 28.6 per cent a year ago.

Consumer durables output during

the month declined by 6.9 per cent against a 25.2 per cent growth in the year-ago period. Consumer non-durable goods output increased by 1.2 per cent compared to a growth of 2.9 per cent a year earlier. Infrastructure/construction goods posted a growth of 11.3 per cent over a 9.4 per cent expansion in the same period a year ago.

The data also showed that the output of primary goods logged 5.2 per cent growth in the month against 13.8 per cent in the year-ago period.

mobile number and e-mail ID.

case, attributes of records can-

not be verified, will not be

allowed to transact further in

the securities market until the

attributes are verified and the

validated records would be allowed portability -- the client

need not undergo the KYC process again when he/she

approaches different interme-

diary. The intermediary will

fetch the validated records

from the KRA database.

While clients in whose

BUSINESS BRIEF

CENTRE OF EXCELLENCE IN BLOCKCHAIN SOON

Amaravati: The Bharat Block chain yatra, organised by IDS and hosted by VIT-AP University in the campus today highlighted the Block chain technology and its insights on advanced information database mechanism that allows transnarent information sharing within a business network. This initiative is powered by Hedera, supported by AICTE and the Ministry of Education, is India's first-of-its-kind tech tour focused on Web3 and Blockchain.

REMARKABLE PFC'S Q1'24 RESULTS

New Delhi: Another Remarkable & profitable Quarter for Power Finance Corporation's Investors -Power Finance Corporation Ltd. records a 43 per cent surge in Standalone Profit After Tax. Investors rewarded with Bonus Share Issue of 1:4. This reinforces Company's commitment to deliver sustained long term returns. Power Finance Corporation now a part of MSCI Global Standard Index. This inclusion will help in enhancing/bolstering PFC's global

BOOSTING SKILL DEV IN POWER SECTOR

New Delhi: PTC India and the Power

Sector Skill Council (PSSC) have partnered to boost skill development and capacity building in India's power sector. Dr. Rajib Mishra, CMD of PTC, and Dr. VK Singh, CEO of PSSC, signed an MOU to collaborate on providing human resource consulting services, focusing on learning and development and other strategic areas of HR. This partnership aims to empower India's power sector with impactful initiatives and also train people.

IST LIMITED

Regd. Office: Dharuhera Industrial Complex, Delhi- Jaipur Highway No.8, Kapriwas, Dharuhera, Rewari (Haryana) - 123106 Head Office: A-23, New Office Complex, 2nd Floor, Defence Colony, New Delhi-110024

CIN: L33301HR1976PLC008316; Phone No.: 011-41044511-14; Fax: 011-24625694; Email: istgroup.ho@gmail.com; Website: www.istindia.com

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2023 (Fig. In Low

name and address of all clients

within two days of receipt of

KYC records. Additionally, the

KRAs will verify the client's

ı		EATHACT OF THATOTAL RESOLUTION THE GOARTER LINDED SUTH SCHOOL, 2020 (Fig. in Lacs unless otherwise stated)										
Γ			Standalone					Consolidated				
l	sı			Quarter Ende	ed	Year ended	Quarter Ended			Year ended	O if	
Ľ	No	Particulars	30.06.2023 Unaudited	31.03.2023 Audited	30.06.2022 Unaudited		30.06.2023 Unaudited	31.03.2023 Audited	30.06.2022 Unaudited		oi ti	
	1	Total Income	1380.71	1204.43	965.04	3,925.58	5,758.81	4,686.74	3,776.93	16,241.95		
Ļ	2	Net Profit before exceptional items and tax	876.63	340.42	(135.54)	921.48	4,973.93	2,719.55	1,827.55	10,679.22		
L	3	Net Profit after exceptional items before tax	876.63	340.42	(135.54)	921.48	4.973.93	2,719.55	1,827.55	10,679.22	li S	
L	4	Net Profit after tax	690.92	279.95	(90.31)	777.50	3,683.93	1,883.11	1,627.24	8,130.42	a	
L	5	Total Comprehensive Income for the period (Net of Tax)	691.39	278.73	(89.28)	779.38	5,603.26	1,180.30	355.24	7,687.45	Ć	
		Equity Share Capital (Face Value Rs. 5/- per share)	584.68	584.68	584.68	584.68	584.68	584.68	584.68	584.68	F	
	h	Other Equity				20,900.75				1,10,358.31	N	
1	8	Earnings Per Share (Face Value Rs. 5/- per share)									2 [
I		- Basic (Rs.)	5.92	2.40	(0.77)	6.67	31.66	16.15	14.02	70.07	v	
I		- Diluted (Rs.)	5.92	2.40	(0.77)	6.67	31.66	16.15	14.02	70.07	N S	

NOTES: The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchange (BSE Ltd.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are By order of the Board available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and company's website www.istindia.com. For IST Limited

(S.C. Jain) DIN: 00092079

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public on behalf of our client that Ms. Arita han is the owner of Plot admeasuring 100 Sq. Yds., our of Old Khasra No. 421 & New Khasra No. 932, situated at Agrasen Colony Kasba Badri, Pargana. Tehsil Dadri, District Gautam Butth Nagar, Uttar Pradesh vide Sale Deed dt. 190.1008, Doc No.1277. All persons are hereby Informed that Ms. Arita Rani wants to mortgage the said property & intend to obtain a loan from our client against the said property. For the said property, two original Sale Deed dt op. 01.2006 in favour of Mr. Mukesh Kumar Goyal and Sale Deed dated 03.04.2006 in favour of Mr. Mukesh Kumar Goyal and Sale Deed dated 03.04.2006 in favour of Mr. Kukesh Kumar Goyal and Sale Deed Markum Bansal are also missing, if anybody has any objection's upon the ownership of above if anybody has any objection/s upon the ownership of above owners over the said property, its mortgage/litigation, and any other objections, kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 07 days of the present. Kumar & Associates (Advocates & Consultants) 200, lind Floor, 23, Shivaji Marg, Moti Nagar, N. Delhi-15 Ph : 011-41112527-28 kumarassociates.advocate@gmail.com

PUBLIC NOTICE
It is to inform to the public at large that Mr.
Suresh Kumar& Mrs. Sangeetawho arepurchasing the Freehold Residential Plot No.18 and 19, area measuring 200 Sq. Yds.
(167.22 Sq. Mr.), out of Khasra No.1013, situated at Nirmala Vihar Colony, Village Loni, Pargana Loni Tehsil & District, Ghaziabad (U.P.);from Mr. Vijay Kumar MalhotraSio. Late Mr. Jogindar Malhotra, who is owner of the aforesaid propertyxide Regd. WILL dated 22.09.2014, which is duly registered vide Document No.734, at SRO-Ghaziabad-IV which was executed by his mother Mrs. Darshna was executed by his mother Mrs. Darshna Malhotra W/o, Late Mr. Jogindar Malhotra; and same to be finance & mortgage by Ummee Housing Finance Private Limited. To comply the requirements of BANK/NBFC, we give thi public notice that if any Person having any type f claim/right/title/interest/ creating mortgag ver the said property, may inform in writing, the address mentioned below, about hi objections, within 07 days from today, failing which it shall be presumed that the said propert is free from all type of Encumbrances, lien etc. Lucem Legal LLP Plot no.136, (Basement

Contact# 011-40046316

SUNLOC

SUNIL HEALTHCARE LIMITED

Registered Office: 38E/252-A, Vijay Tower, Shahpurjat, New Delhi-110049 Email: info@sunilhealthcare.com; website: www.sunilhealthcare.com CIN No. L24302DL1973PLC189662

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2023

(Rs. in Lakhs)

Particulars		Standalone				Consolidated				
	3 Months	3 Months	3 Months	Year Ended	3 Months	3 Months	3 Months	Year Ended		
/	ended	ended	ended	31st	ended	ended	ended	31st		
	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	March 2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	March 2023		
<i>!</i>	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited		
/	[[(Refer	'	1 '	1 '	(Refer	1 '			
	$oldsymbol{ol}oldsymbol{ol}ol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} $	note. 3)		'	'	note. 3)	'			
Total Income from Operations	2,294.83	2,078.68	3,441.64	11,345.87	2,369.76	2,221.75	3,432.32	11,498.74		
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	(98.60)	0.37	610.00	975.86	(86.89)	51.10	582.43	948.33		
Exceptional and/or Extraordinary items)	[1 '	'	1 /	1	1 '	1 '			
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after	(98.60)	0.37	610.00	975.86	(86.89)	51.10	582.43	948.33		
Exceptional and/or Extraordinary items)	[ĺ	<u>'</u>	1		['			
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after	(75.61)	(5.42)	446.75	697.69	(64.17)	45.00	418.50	668.21		
Exceptional and/or Extraordinary items)		<u> </u>	<u>'</u>		<u> </u>		<u> </u>			
Total Comprehensive Income for the period	(75.61)	(9.53)	446.75	693.58	(84.43)	17.63	407.38	604.20		
[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)		1	'	1 '		[]	1 '			
and Other Comprehensive Income (after tax)]	['	.	l!	('	['	l'			
Paid-up equity share capital (Face value	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48		
Rs.10/- each)				l'						
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown	-	-	-	5,147.07	7	:="	-	4,574.21		
in the Audited Balance Sheet of the previous year	L'	1 '		1	1 '	[l'			
Earnings Per Share (after extraordinary items)										
(of Rs.10/- each)	Ĺ'	.[l!	('	L'	L'	l'			
(a) Basic (Rs.)	(0.74)	(0.05)	4.36	6.80	(0.63)	0.44	4.08	6.52		
(b) Diluted (Rs)	(0.74)	(0.05)	4.36	6.80	(0.63)	0.44	4.08	6.52		
N E N E N E S F F F ii E () ()	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up equity share capital (Face value Rs.10/- each) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) (a) Basic (Rs.)	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up equity share capital (Face value Rs.10/- each) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) (a) Basic (Rs.) (0.74)	Particulars 3 Months ended 30.06.2023 Audited (Refer note. 3) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after (75.61) (5.42) Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Paid-up equity share capital (Face value Rs.10/- each) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) (a) Basic (Rs.) (0.74) (0.05)	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (75.61) [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up equity share capital (Face value Rs.10/- each) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) (a) Basic (Rs.) (3 Months ended 30.06.2022 Junaudited (Refer note. 3) 0.06.2022 Unaudited (Refer note. 3) 1.025.68 3,441.64 (98.60) 0.37 610.00 610.00 (75.61) (9.53) 446.75 446.75 1,025.48 1,025.48 1,025.48	3 Months ended 30.06.2023 31.03.2023 30.06.2022 March 2023 Audited (Refer note. 3)	3 Months ended 30.06.2023 30.06.2022 30.06.2023	3 Months ended 30.06.2023 31.03.2023 30.06.2022 31.03.2023	3 Months ended Months ended 3 Months ended 3 Months ended 3 Months ended 4 Montical 2 Months ended 4 Montical 4 Montical		

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and the Company's website (www.sunilhealthcare.com)
- As the Company's business fall within a single primary business segment viz. sale of capsule, the disclosure requirement of Indian Accounting Standard (Ind AS-108) "Operating Segments" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder, is not
 - The figures for the quarter ended March 31, 2023 are the balance figures between audited figures for the full financial and published year to date figures up to the third quarter of the previous financial year.
 - Anil Khaitan

Chairman Cum Managing Director

Place : New Delhi Date: 8/11/2023

DIN 00759951

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 11, 2023.